



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 1977/चण्ड 16, 1899

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 1977/JYAISTHA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 6th June 1977

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose tow falling within Chapter 56 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act

2 This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st October, 1977.

[No. 68/F. No. 355/116/77-CUS I]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जून, 1977

सा० का० नि० 268(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपना यह समाधान

हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 56 के अन्तर्गत आने वाले विस्कोस टो को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अनिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2 यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1977 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं 68/फा० 10 355/116/77-सं I]

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose tow, when imported into India from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

[No 69/F. No 355/116/77-Cus. I]

सा० का० नि० 269 (प्र) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विस्कोस टो को, जब भारत में उसका आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं 69/फ० सं 355 116 77-कस० I]

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts computer peripheral devices falling under sub-heading No. (2) of Heading No 84.51/55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of computer systems to be supplied to educational and research institutions as may be approved in this behalf by the Central Government, from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule;
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (c) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

subject to the condition that the importer, in each case, proves to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs by the production of a certificate issued by the duly authorised officer to the Government of India in the Department of Electronics that the imported peripheral devices are required for the manufacture of computer systems to be supplied to such educational and research institutions.

[No. 70/F. No. S.21/77-TRU(Cus.)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.

सा० का० नि० 270 (प्र) —केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)

की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84, 51, 55 के उपशीर्ष (2) के अन्तर्गत आने वाले गणना परिधीय यंत्रों को, जब भारत में उनका आयात ऐसी गणना प्रणालियों (कंप्यूटर सिस्टम) के विनिर्माण के लिए किया जाए जो उन शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को सप्लाई की जानी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाएं—

- (क) उन पर उद्ग्रहणीय उस समस्त सीमाशुल्क से, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ,
- (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से ;
- (ग) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा शुल्क से,

इस शर्त पर छूट देती है कि प्रत्येक मामले में आयातकर्ता, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को पेश कर के, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दे कि आयात किए गए परिधीय यंत्रों की आवश्यकता ऐसी गणना प्रणालियों के विनिर्माण के लिए है जो उक्त शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं को सप्लाई की जानी है ।

[स 70/फा० सं० एम० 21/77-टी० आर० यू० (कस)]

जोसेफ डोमिनिक, अवसर सचिव ।

